



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 17 पटना, बुधवार, 7 वैशाख 1944 (श०)
27 अप्रील 2022 (ई०)

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1— नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और व्यक्तिगत सूचनाएं।	अन्य 2-16	
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	
भाग-1-ख—मैट्रिकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---	
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	
भाग-4—बिहार अधिनियम	---	
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---	
भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-9—विज्ञापन	---	
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---	
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	---	17-17
पुरक	---	
पुरक-क	---	18-22

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

अधिसूचना

22 अप्रैल 2022

सं० 1/स्था० (2) 01/2021-1387—विभागीय अधिसूचना संख्या-2681 दिनांक 05.07.2011 एवं अधिसूचना संख्या-790 दिनांक 19.03.2013 द्वारा बिहार पशु चिकित्सा सेवा के पदाधिकारियों को वेतन बैंड-3, ग्रेड वेतन रू० 6600/- में दिनांक 01.01.2009 के प्रभाव से प्रथम रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। वित्त विभागीय परामर्श एवं वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-6068 दिनांक 13.06.2013, 7566 दिनांक-14.07.2010 एवं पत्रांक-10936 दिनांक 27.11.2014 में निहित प्रावधान अन्तर्गत विकास आयुक्त की अध्यक्षता में विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी द्वारा दिनांक 25.03.2022 को सम्पन्न बैठक में की गयी अनुशंसा के आलोक में बिहार पशु चिकित्सा सेवा के 1997 बैच के निम्नांकित कुल 54 पदाधिकारियों को पूर्व में प्रदत्त प्रथम एम०ए०सी०पी० (वेतन बैंड-3, ग्रेड वेतन रू० 6600/-) में संशोधन करते हुये प्रथम ए०सी०पी० की स्वीकृति वेतनमान रू० 10000-15200/- में स्तम्भ-4 में अंकित तिथि से एवं द्वितीय रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति वेतन बैंड-3, ग्रेड वेतन रू० 7600/- में स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से प्रदान की जाती है :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम/पदनाम	पूर्व में प्रदत्त प्रथम एम०ए०सी०पी० वेतन बैंड-3 ग्रेड वेतन 6600/- में देय तिथि	प्रदत्त प्रथम एम०ए०सी०पी० के संशोधनोपरान्त प्रथम ए०सी०पी० वेतनमान 10000-15200/- में देय तिथि	द्वितीय एम०ए०सी०पी० की देय तिथि
1	2	3	4	5
1.	डॉ० रायचन्द्र पासवान, सहायक निदेशक (पोवि०), लो०पोवि०परि० (क्षेत्र), सरैया, मुजफ्फरपुर	01.01.2009	26.03.2009	26.03.2017
2.	डॉ० कामाख्या दास, पशु शल्य चिकित्सक, बेतिया, पो चम्पारण	01.01.2009	26.03.2009	26.03.2017
3.	डॉ० विनोद कुमार, अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी, हिलसा, नालन्दा	01.01.2009	01.04.2009	01.04.2017
4.	डॉ० राधेश्याम चौधरी, पशु शल्य चिकित्सक, सासाराम, रोहतास	01.01.2009	01.04.2009	01.04.2017
5.	डॉ० मनोहर कुमार, अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी, कटिहार	01.01.2009	26.03.2009	26.03.2017
6.	डॉ० राज नारायण, अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी, हाजीपुर, वैशाली	01.01.2009	29.03.2009	29.03.2017
7.	डॉ० उमेश चौधरी, अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी, लखीसराय	01.01.2009	26.03.2009	26.03.2017
8.	डॉ० अशोक कुमार, अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी, मसौढ़ी, पटना	01.01.2009	01.04.2009	01.04.2017

9.	डॉ० प्रमोद कुमार सिंह, सहायक निदेशक (प०वि०), वृ०प०वि०परि० (क्षे० स्तर), सकरा, मुजफ्फरपुर	01.01.2009	26.03.2009	26.03.2017
10.	डॉ० रश्मि बेला कुजूर, सहायक कुक्कुट पदाधिकारी, औरंगाबाद	01.01.2009	01.04.2009	01.04.2017
11.	डॉ० दीनानाथ शर्मा, सहायक कुक्कुट पदाधिकारी, अरवल	01.01.2009	16.07.2009	16.07.2017
12.	डॉ० मुकेश सहाय, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बंघुगंज, जहानाबाद	01.01.2009	23.08.2009	23.08.2017
13.	डॉ० दिलीप कुमार झा, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, नारायणपुर, भोजपुर	01.01.2009	21.07.2009	21.07.2017
14.	डॉ० निभा कुमारी, अवकाश रक्षित पदाधिकारी, पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना	01.01.2009	15.07.2009	15.07.2017
15.	डॉ० शशिकान्त अजय, पशु चिकित्सा पदाधिकारी, अश्वारोही, आरा	01.01.2009	16.08.2009	16.08.2017
16.	डॉ० साकेत कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बनगौव, सहरसा	01.01.2009	16.07.2009	16.07.2017
17.	डॉ० भारती सिंह, कनीय सहायक शोध पदाधिकारी, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना	01.01.2009	21.08.2009	21.08.2017
18.	डॉ० विनीता रानी, कनीय सहायक शोध पदाधिकारी, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना	01.01.2009	22.08.2009	22.08.2017
19.	डॉ० सुरेन्द्र साह, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बरसम, सहरसा	01.01.2009	14.08.2009	14.08.2017
20.	डॉ० प्रमोद कुमार गुप्ता, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, महुआ, वैशाली	01.01.2009	03.08.2009	03.08.2017
21.	डॉ० राजेश कुमार, पशुपालन पदाधिकारी, वृ०प०वि०परि० (मु०स्तर), उदवंतनगर, भोजपुर	01.01.2009	23.08.2009	23.08.2017
22.	डॉ० सुनील कुमार, सहायक कुक्कुट पदाधिकारी, जहानाबाद	01.01.2009	22.07.2009	22.07.2017
23.	डॉ० गिरीश कुमार सिन्हा, पशुपालन पदाधिकारी, वृ०प०वि०परि० (क्षे०स्तर), भागलपुर	01.01.2009	16.07.2009	16.07.2017
24.	डॉ० रवि शंकर विद्यार्थी, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी (चलंत), हाजीपुर, वैशाली	01.01.2009	16.07.2009	16.07.2017
25.	डॉ० सत्यनारायण यादव, स्टाफ पशु चिकित्सा पदाधिकारी, क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय, दरभंगा	01.01.2009	16.07.2009	16.07.2017

26.	डॉ० रंजीत कुमार शर्मा, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, गुलजारबाग, पटना	01.01.2009	19.07.2009	19.07.2017
27.	डॉ० अजय कुमार, जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका कार्यालय, पटना	01.01.2009	22.08.2009	22.08.2017
28.	डॉ० मनोज कुमार कश्यप, कृत्रिम प्रजनन प्रणाली पदाधिकारी, प्रोजेन सिमेन बैंक-सह-बुल स्टेशन, पटना	01.01.2009	23.08.2009	23.08.2017
29.	डॉ० राजेश कुमार राजू, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, मकर, सारण	01.01.2009	14.07.2009	14.07.2017
30.	डॉ० देवेन्द्र प्रकाश राकेश, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, मनेर, पटना	01.01.2009	24.07.2009	24.07.2017
31.	डॉ० संजय कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, परैया, गया	01.01.2009	29.07.2009	29.07.2017
32.	डॉ० दीपक कुमार, कनीय सहायक शोध पदाधिकारी, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना	01.01.2009	15.07.2009	15.07.2017
33.	डॉ० राजीव कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, कंकड़बाग, पटना	01.01.2009	29.07.2009	29.07.2017
34.	डॉ० सुनील कुमार, पशुपालन पदाधिकारी, ल०प०वि०परि० (मु०स्तर), बिहारशरीफ, नालन्दा	01.01.2009	21.08.2009	21.08.2017
35.	डॉ० आनन्देश कुमार पटेल, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, शेरघाटी, गया	01.01.2009	17.07.2009	17.07.2017
36.	डॉ० सुधीर कुमार, सहायक कुक्कुट पदाधिकारी, आरा	01.01.2009	26.07.2009	26.07.2017
37.	डॉ० रागिनी कुमारी, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, सबौर, भागलपुर	01.01.2009	15.07.2009	15.07.2017
38.	डॉ० अमरेन्द्र प्रसाद, पशुपालन पदाधिकारी, वृ०प०वि०परि० (क्ष०स्तर) मसौढ़ी, पटना	01.01.2009	29.07.2009	29.07.2017
39.	डॉ० जितेन्द्र प्रसाद, कनीय पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बांकीपुर, पटना	01.01.2009	19.07.2009	19.07.2017
40.	डॉ० शिवशंकर प्रसाद सिंह, आप्त सचिव, मुख्य सचेतक सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान परिषद, पटना	01.01.2009	15.07.2009	15.07.2017
41.	डॉ० मो० अमीन अंसारी, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, रत्नगंज, भागलपुर	01.01.2009	15.07.2009	15.07.2017
42.	डॉ० मकेश्वर साह, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, धोरैया, बांका	01.01.2009	18.07.2009	18.07.2017

43.	डॉ0 सदय प्रसाद सिंह, कनीय सहायक शोध पदाधिकारी, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना	01.01.2009	21.07.2009	21.07.2017
44.	डॉ0 अनिता कुमारी, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, घोषी, जहानाबाद	01.01.2009	15.07.2009	15.07.2017
45.	डॉ0 संजय कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, चुरलीहाट, किशनगंज	01.01.2009	19.07.2009	19.07.2017
46.	डॉ0 अवध किशोर सिन्हा, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, मोकामा, पटना	01.01.2009	16.07.2009	16.07.2017
47.	डॉ0 मिथिलेश कुमार प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, चण्डी, नालन्दा	01.01.2009	22.08.2009	22.08.2017
48.	डॉ0 मो0 जावेद आलम, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, गिरियक, नालन्दा	01.01.2009	16.07.2009	16.07.2017
49.	डॉ0 राज कुमार, सहायक रोग अनुसंधान पदाधिकारी, क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय, भागलपुर	01.01.2009	21.07.2009	21.07.2017
50.	डॉ0 ओम प्रकाश मरीक, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, गढ़ियाबलुआ, पूर्णिया	01.01.2009	16.07.2009	16.07.2017
51.	डॉ0 शशिभूषण प्रसाद, कनीय सहायक शोध पदाधिकारी, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना	01.01.2009	18.07.2009	18.07.2017
52.	डॉ0 रवि कुमार, रक्षित पशु चिकित्सा पदाधिकारी, क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय, भागलपुर	01.01.2009	30.07.2009	30.07.2017
53.	डॉ0 सुधीर रंजन कुमार सहनी, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, चन्दाडीह, बांका	01.01.2009	21.12.2009	21.12.2019
54.	डॉ0 संजीव कुमार सिन्हा, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, हसनबाजार, भोजपुर	01.01.2009	15.07.2009	15.07.2017

2. उपर्युक्त पदाधिकारियों को सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन से संबंधित वेतन पुर्जा महालेखाकार/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्णता अथवा विमुक्ति प्रदान किये जाने की स्थिति संपुष्ट करने के बाद विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने अथवा विमुक्ति की तिथि से ही वित्तीय उन्नयन का आर्थिक लाभ अनुमान्य करते हुए निर्गत किया जाएगा।

3. उपर्युक्त ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान किये जाने के निमित्त भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि (यथा वेतनमान, ग्रेड पे, पे बैंड एवं देय तिथि) पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदान की गयी वित्तीय योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली एकमुश्त कर ली जायेगी। सेवानिवृत्ति की स्थिति में यह वसूली देय पावनाओं से की जायेगी।

4. उपर्युक्त अंकित पदाधिकारियों को संशोधित आदेश के आलोक में अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली एकमुश्त कर ली जाय।

5. उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप संबंधित पदाधिकारी के वेतन का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा तथा मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (ए) (1) के आलोक में वेतन निर्धारण का विकल्प की तिथि, अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह में यदि चाहें तो देगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुमन प्रसाद साह, उप-सचिव।

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

8 अप्रील 2022

सं० 6/प्रो०-06-01/2022-1022/वा०कर-वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-3ए-2-वे०पु०-18/2009-7566, दिनांक-14.07.2010 के द्वारा दिनांक 01.01.2009 के प्रभाव से लागू रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (एम०ए०सी०पी०) के अधीन बिहार वित्त सेवा के 14 (चौदह) पदाधिकारियों को 20 वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण करने के उपरान्त उनके नाम के सामने कॉलम 4 में अंकित तिथि से द्वितीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (एम०ए०सी०पी०) के अन्तर्गत वेतनमान् रू० 15,600-39,100 ग्रेड-पे 6600/- से उच्चतर वेतनमान् रू० 15,600-39,100 ग्रेड-पे 7600/- की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्रम सं०	पदाधिकारियों का नाम/ वर्तमान पदस्थापन	सेवा में प्रथम योगदान की तिथि	द्वितीय एम०ए०सी०पी० की देय तिथि
1	2	3	4
1	श्री हिरेंद्र कुमार (सेवानिवृत्त), राज्य-कर सहायक आयुक्त, अंकेक्षण, भागलपुर।	03.07.1993	03.07.2013
2	श्री प्रवीण कुमार, राज्य-कर उपायुक्त, जी०एस०टी०एन०, नई दिल्ली।	10.08.2001	10.08.2021
3	श्री प्रियदर्शी रंजन, राज्य-कर उपायुक्त, गया अंचल, गया।	03.08.2001	03.08.2021
4	श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, राज्य-कर उपायुक्त, लखीसराय अंचल, लखीसराय।	04.08.2001	04.08.2021
5	श्री अजीत कुमार, राज्य-कर उपायुक्त, रक्सौल अंचल, रक्सौल।	02.08.2001	02.08.2021
6	श्री अभिक अवतंश, राज्य-कर उपायुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना।	02.08.2001	02.08.2021
7	श्री अनुप कुमार, राज्य-कर उपायुक्त, पटना उत्तरी अंचल, पटना।	02.08.2001	02.08.2021
8	श्री अनिल कुमार सिंह विद्यार्थी, राज्य-कर उपायुक्त, दानापुर अंचल, दानापुर।	01.08.2001	01.08.2021
9	श्री शशि भानू, राज्य-कर उपायुक्त, झंझारपुर अंचल, झंझारपुर।	06.08.2001	06.08.2021
10	श्री दीपक राज, राज्य-कर उपायुक्त, दरभंगा अंचल, दरभंगा।	03.08.2001	03.08.2021
11	श्री मणीन्द्र कुमार, राज्य-कर उपायुक्त, मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल, मुजफ्फरपुर।	02.08.2001	02.08.2021
12	श्री प्रमोद कुमार सुमन, राज्य-कर उपायुक्त, अंकेक्षण, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।	02.08.2001	02.08.2021

13	श्री सिरिल बेक, राज्य-कर उपायुक्त, बक्सर अंचल, बक्सर।	18.08.2001	18.08.2021
14	श्री तेज कुमार कुजूर, राज्य-कर उपायुक्त, पटना पश्चिमी अंचल, पटना।	06.08.2001	06.08.2021

2. इस वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप उक्त पदाधिकारियों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3ए-2-वे0पु0-18/2009-7566 दिनांक 14.07.2010 में निहित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।

3. उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदत्त वित्तीय उन्नयन के लाभ से संबंधित अधिसूचना को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
पंकज कुमार सिन्हा, राज्य-कर अपर आयुक्त-सह-संयुक्त सचिव।

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

आदेश

21 अप्रील 2022

सं०-एल/एच०जी०-14-02/2022-3861—महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा का कार्यालय, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक-1801, दिनांक 31.03.2022 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में श्री अमृतांशु, परिवीक्ष्यमान जिला समादेष्टा, मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-180 एवं 196 के आलोक में दिनांक 23.04.2022 से 13.05.2022 तक कुल 21 (इक्कीस) दिनों का असाधारण अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आदेश से,
अनिमेश पाण्डेय, संयुक्त सचिव।

कार्यालय-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना

(प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास प्रभाग)

अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ पथ (राईडिंग रोड), शेखपुरा, पटना-800014

E-mail-ccfhrdbihar@gmail.com

आदेश

12 अप्रील 2022

सं० स्था०(सी०)-01/2020-HRD/235—विज्ञापन संख्या-BCECEB(EFCC)-01/2020 दिनांक 22.01.2020 के आलोक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अंतर्गत "अमीन" के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पषर्द, पटना द्वारा आयोजित Online Computer Based Test (CBT) के परीक्षाफल के आधार पर विभागीय पत्रांक-884 दिनांक 14.03.2022 द्वारा प्राप्त बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पषर्द, पटना के पत्रांक-498/2022 दिनांक 09.03.2022 द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को बिहार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, अमीन संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2020 के नियम 6 एवं 8 के तहत परीक्ष्यमान रूप में अमीन के पद पर Level-3 (21700-69100) के वेतनमान में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ अधोलिखित कंडिकाओं में निहित शर्तों के अधीन पूर्णतः औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है :-

क्र. सं.	संयुक्त मेधा क्रमांक	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम / पता	लिंग	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	फोटोग्राफ
1	2	12018289	श्री भवेश कुमार पंडित, पिता— स्वर्गीय झगरू पंडित, धरहरा, पोस्ट + थाना— बाराहाट, जिला— बांका, पिन कोड — 813103	पुरुष	अनारक्षित (अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	12.05.1985	
2	3	12018410	श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव, पिता— गुप्तेश्वर लाल, ग्राम + पोस्ट —मठिला, थाना — कुरान सराय, जिला—बक्सर, पिन कोड — 802126	पुरुष	अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)	07.02.1986	
3	4	12019873	श्री जरजा रेगन कुमार, पिता— सुनील प्रसाद यादव, गांव + पोस्ट — कनप, थाना— शोर बाजार, जिला— सहरसा, राज्य— बिहार, पिन कोड — 852221	पुरुष	अनारक्षित (पिछड़ा वर्ग)	15.03.1987	
4	5	12013307	श्री मुकुल कुमार श्रीवास्तव, पिता—सुशील कुमार श्रीवास्तव, ग्राम + पो० + थाना— ठकराहा, जिला — पश्चिम चंपारण (बेतिया), पिन कोड — 845404	पुरुष	अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)	05.05.1991	
5	6	12020798	श्री मनोज प्रसाद, पिता— शिवदयाल यादव, ग्राम — नौधरिया, पोस्ट— बीजू बीघा, थाना — बुनियादगंज, जिला— गया, राज्य — बिहार, पिन कोड — 823003	पुरुष	अनारक्षित (पिछड़ा वर्ग)	01.07.1986	

6	7	12014471	<p>श्री अनिल कुमार भारती, पिता—स्व० राम एकवाल प्रसाद, ग्राम — लाला टोला लौखन, पोस्ट— लौखन, थाना—घोड़ासन, राज्य — बिहार, जिला—पूर्वी चंपारण (मोतिहारी), ब्लॉक — घोड़ासहन, पिन कोड — 845418</p>	पुरुष	अनारक्षित (पिछड़ा वर्ग)	02.04.1982	
7	10	12012818	<p>श्री कैलाश कुमार, पिता— जय नारायण चौधरी, ग्राम + पोस्ट — तुर्की खरारु, पंचायत—तुर्कीविस्ट, थाना— मीनापुर, प्रखंड— मीनापुर, जिला. मुजफ्फरपुर, पिन कोड — 843128</p>	पुरुष	अनारक्षित (अनुसूचित जाति)	03.04.1984	
8	11	12014583	<p>श्री हर्ष कुमार, पिता— सत्यव्रत प्रसाद, मकान नं. —47, वार्ड नं. —04, साहित्य समाज चौक हमीदगंज, डालटेनगंज, पलामू (झारखंड), पिन कोड — 822101</p>	पुरुष	अनारक्षित	08.02.1996	
9	12	12014561	<p>श्री राज किशोर, पिता— विजय शंकर चौधरी, बांस कोठी, दीघा घाट, गेट नंबर— 97, जंगलीपीर, पटना, पिन कोड — 800011</p>	पुरुष	अनारक्षित (अनुसूचित जाति)	23.10.1998	

10	13	12002213	श्री गौतम कुमार, पिता —लेखो सिंह, ग्राम — कसहा, पोस्ट— सिमरिया घाट, थाना— बरौनी, जिला— बेगूसराय, पिन कोड — 851126	पुरुष	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	02.01.1999	
11	14	12013363	श्री कृष्ण कुमार, पिता— सुखदेव प्रसाद यादव, ग्राम — पहाड़पुर, पोस्ट— मधुरापुर, थाना — कौआकोल, जिला— नवादा, पिन कोड — 805106	पुरुष	पिछड़ा वर्ग	05.06.1984	
12	15	12022904	श्री मनीष कुमार शर्मा, पिता— शिव कुमार शर्मा, ग्राम + पोस्ट— लवापुर नारायण, थाना —महनार, प्रखंड— महनार, जिला—वैशाली, राज्य — बिहार, पिन कोड —844506	पुरुष	अनु० जन जाति	05.01.1996	
13	16	12017219	सुश्री कृतिका सिंह, पुत्री—राजेंद्र सिंह, ग्राम + पोस्ट — सियाडीह, थाना — चारपोखरी, जिला — भोजपुर (आरा), राज्य — बिहार, पिन कोड — 802223	महिला	अनारक्षित (पिछड़ा वर्ग)	14.02.1998	
14	17	12022748	श्री हरिओम कुमार, पिता— रामाशीष प्रसाद, ग्राम — सुकियावां, पोस्ट — नर्मा, थाना — हुलासगंज, जिला — जहानाबाद, बिहार, पिन कोड — 804407	पुरुष	पिछड़ा वर्ग	15.12.1999	

15	19	12003170	श्री सुमित कुमार, पिता— श्रवण कुमार गुप्ता, ग्राम— दिनेश गुप्ता लेन, सुल्तानगंज, पोस्ट + थाना — सुल्तानगंज, जिला— भागलपुर, पिन कोड — 813213	पुरुष	पिछड़ा वर्ग	15.02.1996	
16	21	12009201	सुश्री ज्योति कुमारी, पुत्री— हरदेव नारायण प्रसाद, ग्राम + पोस्ट — पछताकी यदु, थाना — बैरगनिया, जिला— सीतामढ़ी, पिन कोड — 843313	महिला	अनारक्षित (अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	05.04.1997	
17	22	12021250	श्री चंदन कुमार, पुत्र— अनिल कुमार, ग्राम —अब्दुल्लाचक, पोस्ट— बैरिया, ब्लॉक— संपतचक, थाना— गोपालपुर, बिहार, पटना, पिन कोड — 800007	पुरुष	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	15.11.1992	
18	23	12012903	श्री सौरव कुमार, पिता— मुनेश्वर प्रसाद, गोला रोड, कटरा चौक, शेखपुरा, बिहार, पिन कोड — 811105	पुरुष	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	23.10.1997	
19	24	12014949	सुश्री ब्यूटी कुमारी, पुत्री— रामबालक प्रसाद, ग्राम + पोस्ट — नेहुसा, थाना — हरनौत, जिला — नालंदा, राज्य—बिहार, पिन कोड — 803110	महिला	अनारक्षित (पिछड़ा वर्ग)	30.12.1998	

20	25	12006052	सुश्री अनुपम कुमारी, पुत्री— नवीन सिंह, ग्राम— खैरा, पोस्ट — खरसारी, थाना — कौआकोल, जिला— नवादा, राज्य— बिहार, पिन कोड — 805106	महिला	अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)	20.04.1995	
21	27	12020085	सुश्री ज्योति कुमारी, पिता — धनलाल साव, ग्राम— मखदुमपुर (DTH), पोस्ट + थाना— मखदुमपुर, जिला— जहानाबाद, राज्य— बिहार, पिन कोड — 804422	महिला	अनारक्षित (अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	01.01.1995	
22	29	12023335	मो. अमानुल हक, पिता—मो सनाउल हक, ग्राम— दौलतपुर, पोस्ट— दौलतपुर, थाना— मुफस्सिल, जिला— भोजपुर, आरा, प्रखंड — आरा सदर, पिन कोड — 802313	पुरुष	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	28.03.2001	
23	30	12013080	सुश्री नेहा गुप्ता, पिता— अनिल कुमार, मेन रोड पंचू हिसुआ, मंगल मार्केट के पास, पोस्ट + थाना— हिसुआ, जिला नवादा, राज्य— बिहार, पिन कोड — 805103	महिला	अनारक्षित (अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	05.05.1995	
24	31	12007058	श्री हिमांशु कुमार, पिता— छोटेला, ग्राम + पोस्ट + थाना—जीरादेई, जिला— सीवान, बिहार, पिन कोड— 841245	पुरुष	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	13.01.1996	

25	34	12011465	सुश्री पिकी कुमारी, पिता— स्व० हरिनारायण भगत, ग्राम—पिपरदाहा, पो०—सरसी, थाना— पालीगंज, जिला—पटना (बिहार), पिन कोड—801110	महिला	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	13.09.2001	
26	36	12008037	श्री मनीष कुमार, पिता— ओम प्रकाश, ग्राम —रानीबाजार, पोस्ट— + थाना — कौआकोल, जिला — नवादा, बिहार, पिन कोड — 805106	पुरुष	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	29.12.1995	
27	37	12009213	श्री विकास कुमार, पुत्र— बोधन राम, ग्राम + पोस्ट— परिहार, थाना— बखरी, प्रखंड — बखरी, जिला बेगूसराय, बिहार, पिन कोड — 848201	पुरुष	अनु० जाति	12.06.1996	
28	43	12014757	श्री रोहन कुमार, पिता— जितेंद्र राम, वार्ड नंबर— 11, लोकनाथपुर गंज रोड, दलसिंहसराय, समस्तीपुर, बिहार, पिन कोड — 848114	पुरुष	अनु० जाति	23.12.1996	
29	44	12015110	सुश्री प्रियंका पाटिल, पिता— हेमंत कुमार सिंह, राजेंद्र नगर, थाना— चित्रगुप्त नगर, जिला— खगड़िया, ब्लॉक— खगड़िया, बिहार, पिन कोड — 851205	महिला	पिछड़ा वर्ग	05.06.1997	

30	49	12021901	श्री नीरज कुमार, पिता—स्व० उमेश चौधरी, ग्राम+ थाना — बरहिया, जिला— लखीसराय, प्रखंड — बरहिया, बिहार, पिन कोड — 811302	पुरुष	अनु० जाति	15.10.1997	
31	51	12013445	सुश्री रिया कुमारी, पुत्री— जितेंद्र कुमार, सिद्धिया घाट, नियर — रश्मि अल्ट्रा साउंड, चौक, हाउस नं.—GN. 001.0569, गया, बिहार, पिन कोड — 823001	महिला	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	06.03.2001	
32	58	12019606	श्री संतोष राम, पिता— हरि राम, ग्राम — गोपालपुर, पोस्ट— भाभाटा, थाना — साथी, पश्चिम चंपारण (बेतिया), बिहार, पिन कोड — 845449	पुरुष	अनु० जाति	04.06.1991	
33	62	12007735	सुश्री नेहा भूषण, पिता— शशि भूषण कुमार, हनुमानगंज, देवी स्टैन के पास, इस्लामपुर, नालंदा, बिहार, पिन कोड — 801303	महिला	पिछड़ा वर्ग	04.04.1994	
34	65	12003395	सुश्री जूही कुमारी, पिता — पावस प्रसाद, ग्राम — भोरमबाग, पोस्ट— इतपकवा, थाना— कौआकोल, जिला— नवादा, राज्य — बिहार, पिन कोड — 805106	महिला	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	02.03.1998	

35	70	12013405	सुश्री ईशा गुप्ता, पिता— अनिल कुमार, मेन रोड पंचू हिसुआ, निकट— मंगल मार्केट, हिसुआ, पोस्ट + थाना— हिसुआ, जिला— नवादा, राज्य— बिहार, पिन कोड — 805103	महिला	पिछड़े वर्गों की महिला (अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	29.04.1996	
36	77	12015710	सुश्री प्रीति कुमारी, पिता — प्रेमचंद कुमार, आर—ब्लॉक, रोड नंबर —1, पोस्ट— जी.पी.ओ, थाना— सचिवालय, जिला — पटना, पिन कोड — 800001	महिला	अनु० जाति	28.02.2002	
37	144	12003494	मो. वसीम राही, पिता — मोहम्मद नेजामुद्दीन, ग्राम — लक्ष्मीपुर, पोस्ट— कौडीहार, थाना — रक्सौल, जिला— पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, बिहार, पिन कोड — 845305	पुरुष	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	15.07.1992	
38	146	12019545	सुश्री नीतू कुमारी, पिता — मनोज कुमार, ग्राम — सैदपुर, पोस्ट— बरका डुमरा, थाना — मुफस्सिल, जिला— भोजपुर, आरा, पिन कोड — 802312	महिला	अनु० जाति	29.10.1998	
39	148	12018594	सुश्री अंजलि कुमारी, पिता— ललन राम, पत्नी — गोविंदा कुमार, ग्राम + पोस्ट— बरौली, थाना—पीरो, जिला— भोजपुर, बिहार, पिन कोड — 802207	महिला	अनु० जाति	27.12.1992	

2. यह नियुक्ति चरित्र एवं पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। यदि किसी अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल प्राप्त होता है, तो उनकी सेवा, बिना किसी पूर्व सूचना के तुरंत समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जायेगी।

3. भविष्य में इनसे संबंधित सभी प्रमाण-पत्रों के संबंध में गलत सूचना/फर्जी पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई भी की जायेगी।

4. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक-31.08.2005 एवं 768 पे०को० दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन अमीनों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5. बिहार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, अमीन संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2020 के नियम 8 एवं 9 के आलोक में उपर्युक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति अमीन के रूप में 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर की जा रही है। परिवीक्षा अवधि पूरी करने पर अमीन का आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि और एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी, यदि यह प्रतीत हो कि आचरण एवं सेवा में सुधार की संभावना है। बढ़ायी गई अवधि में भी आचरण एवं सेवा संतोष जनक नहीं पायी जाय तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकेगी। अमीनों को समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। यदि प्रशिक्षण के अंत में कोई परीक्षा नियत की जाती है तो उसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। साथ ही बिहार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, अमीन संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2020 के सभी सुसंगत प्रावधान लागू होंगे।

6. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने तथा मद्यपान नहीं करने संबंधी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

7. वैसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी राज्य सरकार/भारत सरकार/सरकारी उपक्रम में कार्यरत हैं, उन्हें योगदान के समय संबंधित विभाग/संस्थान का विरमन आदेश/स्वीकृत त्याग पत्र/अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8. प्रत्येक अभ्यर्थी को योगदान के समय सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9. अभ्यर्थियों को योगदान के निमित्त कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

10. यदि इस अधिसूचना में कोई भूल अथवा टंकण आदि की त्रुटि परिलक्षित होती है, तो इसे तदनुसार संशोधित किया जायेगा।

प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
सुधीर कुमार, मुख्य वन संरक्षक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 6—571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि ।

सूचना

सं० 464---मैं राजेश कुमार, साकिन-लक्ष्मीपुर बाढ़, पो. रैली, थाना- एनटीपीसी पटना, वर्तमान पता-नासरीगंज, थाना-दानापुर पटना (बिहार) का निवासी हूँ। शपथ पत्र सं. 3664/22.02.2022 द्वारा सुचित करता हूँ कि मेरी पुत्री मेघा रानी के सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में भूलवश मेरा नाम राजेश प्रसाद अंकित हो गया है, जो गलत है। सही नाम राजेश कुमार है। आगे मैं अब राजेश कुमार के ही नाम से जाना एवं पहचाना जाऊँगा।

राजेश कुमार।

No. 465---I, **SHALINI** Kumar W/o Rajnish Raj Kumar R/o House no. 302 AB, Road no. 11C, Patliputra Colony, Dist.-Patna after marriage I have changed my name from Shalini to Shalini Kumar. Affidavit no. 114 dated 28.12.2021.

SHALINI Kumar.

No. 469---I, **PUSHPA** Kumari W/o Sanjay Kumar R/o Flat no-303, Swadesh Tower, P.S.-Rupaspur, Bailey Road, Patna vide affidavit no.18147 dated 16.12.21 declare that my name Pushpa Devi has been wrongly mentioned in my son's School record. That my correct name is Pushpa Kumari for all purposes.

PUSHPA Kumari.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 6—571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० 27/आरोप-01-55/2019 सा०प्र०—5046
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

1 अप्रैल 2022

श्री रविश किशोर, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1015/11, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंधराठाढ़ी (मधुबनी) के विरुद्ध अंधराठाढ़ी प्रखंड, महारैल चौक पर स्वतंत्रता सेनानी, स्मृतिगेट का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण किये जाने के दायित्व का निर्वहन नहीं करने, उक्त योजना के कार्यान्वयन का नियमित रूप से पर्यवेक्षण नहीं किये जाने संबंधी आरोप पत्र ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-275782 दिनांक 17.07.2020 द्वारा प्राप्त हुआ।

प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में इस विभाग के स्तर से आरोप पत्र गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक 13863 दिनांक 24.11.2021 द्वारा श्री रविश किशोर से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री रविश किशोर का स्पष्टीकरण पत्रांक-42 दिनांक-20.01.2022 द्वारा प्राप्त हुआ जिसमें अंकित किया गया है कि योजना को पूर्ण कराने की दिशा में पहले श्री घूरन पासवान को तथा बाद में श्री मोहन लाल दास को विभागीय अभिकर्ता नियुक्त किया गया। श्री दास को लगातार उनके द्वारा योजना पूर्ण कराने हेतु नोटिस भी निर्गत किया गया।

श्री रविश किशोर के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री रविश किशोर द्वारा अपने कार्यकाल में उक्त योजना को पूर्ण कराने हेतु प्रयास किया गया। अतः सम्यक् विचारोपरांत श्री रविश किशोर, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1015/11, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंधराठाढ़ी (मधुबनी) सम्प्रति आप्त सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित) के नियम 14(3) के अंतर्गत **चेतावनी** निर्गत की जाती है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
महेन्द्र कुमार, अपर सचिव।

सं० 27/आरोप-01-46/2020-सा०प्र०—5851

13 अप्रैल 2022

श्री रमेश प्रसाद दिवाकर (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 1208/11 भूमि सुधार उप समाहर्ता, शेरघाटी, गया के पद पर पदस्थापित थे। दिनांक 10.11.2012 को परिवादी श्री संतोष कुमार, मुखिया, कचौड़ी पंचायत से उनके पंचायत अंतर्गत मनरेगा योजना में कराये गये कार्य की स्थल जाँच में उनके पक्ष में रिपोर्ट देने के लिए 40 हजार रु० रिश्वत लेते रंगे हाथ आर्थिक अपराध इकाई के नेतृत्व में धावा दल द्वारा गिरफ्तार किये जाने की सूचना जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक 4824 दिनांक 24.11.2012 द्वारा प्राप्त होने पर अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदन से श्री दिवाकर को Bihar C.C.A Rules, 2005 के नियम-9 (1)(ग) के तहत दिनांक 10.11.2012 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 693 दिनांक 14.01.2013 द्वारा निलंबित किया गया।

श्री दिवाकर के विरुद्ध दर्ज आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या-28/12 दिनांक 09.11.2012 में विधि विभाग के आदेश ज्ञापांक 05 दिनांक 08.01.2013 द्वारा अभियोजन स्वीकृत किया गया है।

2. जिला पदाधिकारी, गया द्वारा श्री दिवाकर के विरुद्ध कर्तव्यों के प्रति शिथिलता, वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना, जनता दरबार जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की उपेक्षा, स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता आदि से संबंधित प्रतिवेदित

आरोपों के आलोक में इस विभाग के स्तर से आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया तथा आरोपित पदाधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4506 दिनांक 03.04.2014 द्वारा श्री दिवाकर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया के पत्रांक 679/विधि दिनांक 20.02.2021 द्वारा इस विभाग को जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें इनके विरुद्ध सभी आरोपों को प्रमाणित पाया गया है।

4. विभागीय पत्रांक 3342 दिनांक 09.03.2021 द्वारा श्री दिवाकर को जाँच प्रतिवेदन की प्रति भेजते हुए उनसे लिखित अभिकथन की मांग की गयी। श्री दिवाकर ने अपने पत्र (दिनांक 12.07.2021) द्वारा लिखित अभिकथन समर्पित किया।

5. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री दिवाकर के विरुद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपित पदाधिकारी के बचाव बयान के समीक्षोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित) के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री रमेश प्रसाद दिवाकर (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1208/11 के विरुद्ध **“सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी”** का दंड विनिश्चित किया गया।

6. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री दिवाकर के विरुद्ध विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 10279 दिनांक 10.09.2021 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श/सहमति की मांग की गयी। आयोग के पत्रांक-3331 दिनांक-11.02.2022 द्वारा आयोग का अभिमत प्राप्त हुआ, जिसमें आयोग द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति दी गयी है।

7. बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति के उपरान्त श्री रमेश प्रसाद दिवाकर, कोटि -1208/11, तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता, शेरघाटी, गया सम्प्रति निलंबित को **“सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी”** संबंधी संलेख/प्रस्ताव विभागीय पत्रांक-4455 दिनांक-24.03.2022 द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद् को स्वीकृति हेतु भेजा गया। राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक-04.04.2022 को संपन्न बैठक में मद संख्या-05 के रूप में सम्मिलित करते हुए उक्त संलेख/प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

8. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-14 के उपनियम (xi) के संगत प्रावधानों के तहत श्री रमेश प्रसाद दिवाकर, कोटि -1208/11, तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता, शेरघाटी, गया सम्प्रति निलंबित को **“सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी”** का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेश से,

रविन्द्रनाथ चौधरी, विशेष कार्य पदाधिकारी।

सं० 27/नि०था०-11-02/2019-सा०प्र०-5883

18 अप्रैल 2022

श्री प्रभाष कुमार (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 894/11 को दिनांक 14.06.2017 को प्रतिवादी धनंजय प्रसाद से 20 हजार रू० रिश्वत लेते रंगे हाथ निगरानी धावा दल द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा उनके विरुद्ध निगरानी थाना कांड संख्या-44/17 दिनांक 14.06.2017 दर्ज किया गया। माननीय विशेष न्यायाधीश निगरानी-1 के आदेशानुसार इन्हें न्यायिक हिरासत में आदर्श केन्द्रीय कारा, बेउर, पटना में भेज दिया गया।

2. श्री कुमार के विरुद्ध दर्ज निगरानी थाना काण्ड-44/17 दिनांक-14.06.2017 के संबंध में विधि विभाग के आदेश संख्या-152 दिनांक-11.08.2017 द्वारा अभियोजन स्वीकृत किया गया।

3. अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदन से श्री कुमार को Bihar C.C.A Rules, 2005 के नियम-9 (1)(ग) तथा नियम-9(2) के तहत न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि से विभागीय संकल्प ज्ञापांक 8300 दिनांक 07.07.2017 द्वारा निलंबित किया गया। उक्त निलंबनादेश के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-3564/18 दायर किया गया। उक्त सी०डब्ल्यू०जे०सी० में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2018 को पारित अंतरिम आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

"In such view of the matter, this writ petition is allowed. Accordingly, the order of suspension containing memo no.-8300 dated 07.07.2017 is quashed."

4. उक्त सी०डब्ल्यू०जे०सी० में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-15873 दिनांक 05.12.2018 द्वारा उनके निलंबन आदेश (पत्रांक-8300 दिनांक 07.07.2017) को निरस्त किया गया तथा विभागीय संकल्प ज्ञापांक-15885 दिनांक 05.12.2018 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9 (1)(क) में निहित प्रावधानों के आलोक में श्री कुमार को संकल्प निर्गत की तिथि से निलंबित किया गया।

5. मामले की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए जिला पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक-306 दिनांक 22.02.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र के आलोक में इस विभाग के स्तर से आरोप गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया तथा विभागीय पत्रांक-5525 दिनांक 24.04.2018 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री कुमार द्वारा पत्रांक-02 कैम्प दिनांक 25.06.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। आरोप पत्र एवं

स्पष्टीकरण की समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदन से विभागीय संकल्प ज्ञापांक 13539 दिनांक 09.10.2018 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी जिसमें विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

6. मुख्य जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 260/गो0 दिनांक 11.12.2020 द्वारा इस विभाग को जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें इनके विरुद्ध आरोपों को प्रमाणित पाया गया है।

7. विभागीय पत्रांक 807 दिनांक 18.01.2021 द्वारा श्री कुमार को जाँच प्रतिवेदन की प्रति भेजते हुए उनसे लिखित अभिकथन की मांग की गयी। श्री कुमार के पत्र दिनांक 24.08.2021 द्वारा लिखित अभिकथन समर्पित किया गया।

8. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री प्रभाष कुमार के विरुद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपित पदाधिकारी के बचाव बयान के समीक्षोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित) के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री प्रभाष कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 894/11 के विरुद्ध **“सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी”** का दंड विनिश्चित किया गया।

9. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 11800 दिनांक 05.10.2021 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श/सहमति की मांग की गयी। आयोग के पत्रांक-3333 दिनांक 11.02.2022 द्वारा आयोग का अभिमत प्राप्त हुआ, जिसमें आयोग द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति दी गयी है।

10. बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति के उपरांत श्री प्रभाष कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 894/11, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, पीरो, भोजपुर सम्प्रति निलंबित को **“सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी”** संबंधी संलेख/प्रस्ताव विभागीय पत्रांक-4454 दिनांक 24.03.2022 द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद् को स्वीकृति हेतु भेजा गया। राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक-04.04.2022 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या-04 के रूप में सम्मिलित करते हुए उक्त संलेख/प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

11. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित) के नियम-14 के उपनियम (xi) के संगत प्रावधानों के तहत श्री प्रभाष कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 894/11 तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, पीरो, भोजपुर सम्प्रति निलंबित को **“सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी”** का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेश से,

रविन्द्रनाथ चौधरी, विशेष कार्य पदाधिकारी।

सं0 कारा/नि0को0(अधी0)-01-26/2021-4613

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय

गृह विभाग (कारा)

संकल्प

20 अप्रैल 2022

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि बंदी अनिल कुमार सिंह, पे0-उमेश प्रसाद सिंह को बिना विभागीय आदेश के उपकारा, वीरपुर से मंडल कारा, सुपौल स्थानांतरित करने तथा उपकारा, वीरपुर में संसीमित बंदियों को डायट चार्ट के अनुसार भोजन नहीं देने, बंदी सुभाष यादव उर्फ निर्दोष यादव एवं अन्य सहयोगी बंदियों द्वारा कारा प्रशासन के संरक्षण में कारा के अन्दर सभी प्रकार का अवैध कार्य, जबरन वसूली, मारपीट करने एवं दबंग बंदियों से आपराधिक साठ-गाँठ कर इस कृत्य में श्री राजीव कुमार, तत्कालीन अधीक्षक, उपकारा, वीरपुर (सम्प्रति निलंबित) संलग्न केन्द्रीय कारा, मोतिहारी द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरती गई है। साथ ही श्री कुमार का यह कृत्य उनकी प्रशासनिक विफलता एवं इस अवैध अनाचार में गहरी संलिप्तता का द्योतक है।

श्री कुमार का यह कृत्य बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम-351, 352, 796(i), (ii) एवं 797 (xiv) तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3 (1) (2) के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।

2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री राजीव कुमार, तत्कालीन अधीक्षक, उपकारा, वीरपुर (सम्प्रति निलंबित) संलग्न केन्द्रीय कारा, मोतिहारी के विरुद्ध संलग्न प्रपत्र 'क' में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17(2) के तहत आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा को संचालन पदाधिकारी तथा अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

5. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे।

6. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
रजनीश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव—सह—निदेशक (प्र०)।

सं० 6/श्रम वि० आ० (01)—02/2020 श्र०सं०—896

श्रम संसाधन विभाग

संकल्प

19 अप्रैल 2022

श्री संजय कुमार, तत्कालीन सहायक निदेशक, प्रशिक्षण—सह—मिशन निदेशक, बिहार कौशल विकास मिशन सम्प्रति सहायक निदेशक, प्रशिक्षण शिक्षु, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध संचालित विभागीय को समाप्त कर आरोप मुक्त करने के संबंध में।

श्री संजय कुमार, तत्कालीन सहायक निदेशक, प्रशिक्षण—सह—मिशन निदेशक, बिहार कौशल विकास मिशन सम्प्रति सहायक निदेशक, प्रशिक्षण शिक्षु, मुजफ्फरपुर (प्रतिनियुक्त—सहायक निदेशक, प्रावै० शिक्षा, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, प्रशिक्षण पक्ष) के विरुद्ध मिशन प्रबंधक (समन्वय), बिहार कौशल विकास मिशन, बिहार, पटना के पत्रांक—1247 दिनांक 31.12.2019 के माध्यम से यह आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया कि विभागीय अधिसूचना संख्या—81 दिनांक 30.06.2016 द्वारा श्री संजय कुमार को बिहार कौशल विकास मिशन के मिशन निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था। प्रतिनियुक्ति की अवधि में उन्हें विभागीय वाहन उपलब्ध कराया गया था। परन्तु श्री कुमार द्वारा अपने मूल पदस्थापित स्थान निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) को वाहन उपलब्ध होने की सूचना प्रस्तुत नहीं कर परिवहन भत्ता की राशि प्राप्त की गई एवं सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया। उक्त के आलोक में श्री संजय कुमार से विभागीय ज्ञापन संख्या—294 दिनांक 11.02.2020 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई।

2. श्री संजय कुमार, सहायक निदेशक, प्रशिक्षण शिक्षु, मुजफ्फरपुर ने अपने पत्रांक—शून्य दिनांक 25.05.2020 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया। समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत श्री कुमार के विरुद्ध आरोप गम्भीर पाते हुए सक्षम प्राधिकार द्वारा विभागीय संकल्प ज्ञापांक—697 दिनांक 19.03.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी श्री अरविन्द कुमार, संयुक्त श्रमायुक्त एवं श्री मोहन तौती, उप निदेशक, प्रशिक्षण को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. श्री अरविन्द कुमार, संयुक्त श्रमायुक्त—सह—संचालन पदाधिकारी के पत्रांक—626 दिनांक 03.03.2022 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री संजय कुमार के विरुद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा यह मंतव्य दिया गया कि श्री संजय कुमार दिनांक 01.07.2014 से सहायक निदेशक प्रशिक्षण के पद पर पदस्थापित है। तदनुसार वित्त विभाग, बिहार सरकार से वित्तीय प्राधिकार प्राप्त कर परिवहन भत्ता प्राप्त कर रहे थे। इस बीच जुलाई, 2016 में मिशन निदेशक का पद (अतिरिक्त) ग्रहण किया इनके नाम से गाड़ी आवंटित नहीं थी परन्तु आवश्यकतानुसार जुलाई, 2017 से बी०एस०डी०एम० में सरकारी कार्य हेतु वाहन का उपयोग किया गया तथा आरोपित पदाधिकारी के अभिलेख के अनुसार परिवहन भत्ता मद में ली गई राशि के विरुद्ध रुपये 103286/— को चलान के माध्यम से कोषागार में जमा कर दिया गया। चूंकि भूलवश/परिस्थितिजन स्थिति में आरोपित पदाधिकारी के द्वारा ली गई राशि को संज्ञान में आने के बाद स्वतः जमा कर दिया गया है। अतः राशि जमा करने के उपरान्त कोई आरोप नहीं बनता है।

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई एवं यह पाया गया कि श्री संजय कुमार के विरुद्ध लगाया गया कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं है। उक्त के आलोक में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमति व्यक्त करते हुए श्री संजय कुमार को आरोपमुक्त करने का निर्णय लिया गया।

5. अतएव श्री संजय कुमार, तत्कालीन सहायक निदेशक, प्रशिक्षण—सह—मिशन निदेशक, बिहार कौशल विकास मिशन सम्प्रति सहायक निदेशक, प्रशिक्षण शिक्षु, मुजफ्फरपुर (प्रतिनियुक्त—सहायक निदेशक, प्रावै० शिक्षा, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, प्रशिक्षण पक्ष) को उनके विरुद्ध गठित आरोप विभागीय संकल्प ज्ञापांक—697 दिनांक—19.03.2021 से आरोपमुक्त किया जाता है।

6. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्री संजय कुमार, तत्कालीन सहायक निदेशक, प्रशिक्षण—सह—मिशन निदेशक, बिहार कौशल विकास मिशन सम्प्रति सहायक निदेशक, प्रशिक्षण शिक्षु, मुजफ्फरपुर (प्रतिनियुक्त—सहायक निदेशक, प्रावै० शिक्षा, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, प्रशिक्षण पक्ष) को निबंधित डाक से उपलब्ध करायी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
राजीव कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी।

सं० प्र०-०१-रा०(आ०)-०४ / 2022-1791 / एम०

खान एवं भूतत्व विभाग

संकल्प

18 अप्रैल 2022

श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, खनिज विकास पदाधिकारी, (मु०), खान एवं भूतत्व विभाग के विरुद्ध आर्थिक अपराध इकाई, पटना द्वारा थाना काण्ड संख्या-०७/2022 दिनांक 17.02.2022, धारा-13(2)-सह-पठित धारा-13(1)(बी०)-भ०नि०अधि० (यथा संशोधित 2018) के तहत मामला दर्ज होने एवं उक्त काण्ड के अनुसंधान के क्रम में उनके आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी करने पर आय से अधिक सम्पत्ति बरामद होने की सूचना देते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रतिवेदन में प्रतिवेदित आरोपों की गंभीरता के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) एवं (ग) में निहित प्रावधानों के तहत श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, खनिज विकास पदाधिकारी को संकल्प निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जिला खनन कार्यालय, गया निर्धारित किया जाता है। इन्हें निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जायेगा।

श्री सिन्हा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की वृहद जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही का आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

आदेश से,

चित्रगुप्त कुमार, उप-सचिव।

सं० प्र०-०१-रा०(आ०)-०३ / 2022-1798 / एम०

18 अप्रैल 2022

श्रीमती निधि भारती, खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, शेखपुरा अतिरिक्त प्रभार खनिज विकास पदाधिकारी, जमुई के विरुद्ध जिलाधिकारी, शेखपुरा, पुलिस अधीक्षक, शेखपुरा एवं श्री घनश्याम झा, खनिज विकास पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा जाँचोपरांत प्रतिवेदित गंभीर आरोप यथा-बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2021 के नियम -56(2) का जानबुझ कर उल्लंघन करने, बिना वाहन संख्या के दूसरे राज्य द्वारा निर्गत मैनुअल चालान को मान्यता देने, बिना बजन कराये मनमाने ढंग से वाहनों पर लदे खनिज का आकलन करने, 14 चक्का के वाहनों के लिए निर्धारित शमन-शुल्क से कम शमन-शुल्क अधिरोपित करने, अवैध रूप से लघु खनिज के परिवहन में संलग्न वाहन स्वामी को लाभ पहुँचाने, सरकारी राजस्व की बड़ी क्षति पहुँचाने तथा भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के कारण सम्यक् विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) में निहित प्रावधानों के तहत श्रीमती निधि भारती, खनिज विकास पदाधिकारी को संकल्प निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है। इन्हें निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जायेगा।

श्रीमती भारती के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की वृहद जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही का आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

चित्रगुप्त कुमार, उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 6-571+15-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>